

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - षष्ठ

दिनांक -17- 10-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज लिंग के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे।

लिंग के भेद

लिंग के दो भेद होते हैं - पुल्लिंग और स्त्रीलिंग

पुल्लिंग

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे- गायक,शेर, मोर, बंदर, आदि।

स्त्रीलिंग

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है; जैसे- गायिका,

शेरनी, मोरनी, बंदरिया आदि।

लिंग पहचान के नियम

प्राणियों में तो नर या मादा के आधार पर स्त्रीलिंग-पुल्लिंग की पहचान हो जाती है। परंतु निर्जीव वस्तुओं

के विषय में परंपरा या मान्यता का ही सहारा लेना पड़ता है। वाक्य-निर्माण करते समय विशेषण और क्रिया

के आधार पर लिंग पहचानना आसान हो जाता है।

क्रिया के आधार पर

बस चल रही है। (स्त्रीलिंग)

ट्रक चल रहा है। (पुल्लिंग)

बरसात हो रही है। (स्त्रीलिंग) पानी बरस रहा है। (पुल्लिंग)

• नदी बह रही है। (स्त्रीलिंग) पानी बह रहा है। (पुल्लिंग)

विशेषण के आधार पर

आवाज़ सुरीली है। (स्त्रीलिंग) गला सुरीला है। (पुल्लिंग)

• मस्जिद बड़ी है। (स्त्रीलिंग) घर बड़ा है। (पुल्लिंग)

पुल्लिंग शब्दों की पहचान

सामान्यतया ये शब्द पुल्लिंग होते हैं

1. हिंदी महीनों के नाम- आषाढ़, सावन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि।
 2. दिनों के नाम- रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि।
 3. अंग्रेज़ी महीनों के नाम - मार्च-अप्रैल जून जुलाई-अगस्त सितंबर अक्टूबर-नवंबर दिसंबर(अपवाद जनवरी-फरवरी मई)
 - 4- ग्रहों के नाम- राहु ,केतु, मंगल, सूर्य आदि(पृथ्वी अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग है)
 - 5- पेड़ों के नाम-- आम जामुन नीम पीपल बरगद आदि (लेकिन इमली खट्टी हो या मीठी वह स्त्रीलिंग है।)
 - 6- धातुओं के नाम- तांबा पीतल सोना लोहा इत्यादि (लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है)
 - 7- रत्नों के नाम- हीरा पन्ना मोती मूंगा नीलम आदि (मणि को छोड़कर)
 - 7-पर्वतों के नाम-- हिमालय ,आलप्स, अरावल, गोवर्धन आद।
 - 8- सागरों या महासागरों के नाम --अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर आदि।
- शेष कल अध्ययन करेंगे।